



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
(EXTRAORDINARY)

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)

PART II—Section 3—Sub-section (II)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 318]
No. 318]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 8, 1980/आषाढ़ 17, 1902
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 8, 1980/ASADHA 17, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सक ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 जुलाई, 1980

क्र०आ० 527 (अ).—भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की रपट पर यतः केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि नीचे अनुसूची में यथार्थित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार), कलकत्ता नगर में सार्वजनिक व्यय पर कलकत्ता मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संक्रमों के निर्माण जैसे एक सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण कर लिया जाय।

अतः, अब, भूमिगत रेल (संक्रम निर्माण) अधिनियम, 1978 की धारा 10 की उप-धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची में यथार्थित भूमि, भवन इत्यादि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार) एतद्वारा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिग्रहीत किया जाता है।

यह घोषणा सभी संबंधित व्यक्तियों को की जाती है।

भूमि, भवन आदि के प्लान का, जिसके लिए उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार) अधिग्रहीत किया गया है, कलकत्ता मेट्रो रेलवे के सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

भूमि, भवन आदि जिसमें उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार) कलकत्ता मेट्रो रेलवे और मेट्रो रेलवे से संबंधित अन्य संक्रमों के निर्माण के प्रयोजन से अधिग्रहीत किया गया है, को दर्शाने वाली अनुसूची।

कलकत्ता महानगर भूमि अनुसूची संख्या 10/28

प्लान का संदर्भ		प्रयोजन जिसके लिए भूमि, भवन आदि में उपयोग का अधिकार (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार) अधिग्रहीत किया गया है।		भूमि आदि, जिसमें उपयोग का अधिकार अधि-ग्रहित किया गया हो, का क्षेत्रफल, विवरण तथा उसकी सीमा रेखा (अण्डर ग्राउन्ड अधिकार)	(अण्डर ग्राउन्ड अधिकार)
सेट	शीट	क्षेत्रफल वर्गमीटर में	विवरण		भूमि की सीमा-रेखा
1	2	3	4	5	

भाग-I

ड्राइंग सं० एम आर सी/डब्ल्यू/सैड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संक्रमों का निर्माण।	27.50 वर्गमीटर	1/1/एच/3, रायचरण साधुखान रोड के नीचे	उत्तर : उत्तरी परिसर का उत्तरी भाग दक्षिण : रायचरण साधुखान रोड पूर्व : (रायचरण साधुखान रोड लेन) पश्चिम : रायचरण साधुखान रोड
---	---	----------------	--------------------------------------	--

1	2	3	4	5
भाग—II				
ड्राइंग सं० एम प्रार सी/इल्यू सीड/276-79	मेट्रो रेलवे तथा उससे संबंधित अन्य संक्रमों का निर्माण।	148.50 वर्गमीटर	1/1/एच/3, रायचरण साधुखान रोड के नीचे	उत्तर : उसी परिसर का उत्तरी भाग और 1/1/एच/3 रायचरण साधुखान रोड तथा 113, बेलगछिया रोड के बीच की खाली जगह दक्षिण : उसी परिसर का दक्षिण भाग पूर्व : लेन (रायचरण साधुखान रोड) पश्चिम : रायचरण साधुखान रोड
कुल क्षेत्रफल		176.00 वर्गमीटर (.0176 हेक्टेयर)		

[फाइल सं० 80/एम टी पी/सी/एल ए/64]
के० बालचन्द्रन, सचिव, रेलवे बोर्ड एवं
भारत सरकार के पदेन संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th July, 1980

S.O. 527(E).—Whereas the Central Government on the report of the Competent Authority under the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 is satisfied that the right of user (underground right) in the land, building, etc., mentioned in the Schedule below should be acquired for a public purpose, namely, for construction of Metro Railway, Calcutta and other works connected therewith at the public expense in the city of Calcutta.

Now, therefore, it is hereby declared that in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 10 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978, the Central Government do hereby acquire the right of user (underground right) in the land, building, etc. referred to in the Schedule below.

This declaration is made to all whom it may concern.

A plan of the land, building etc. in respect of which the right of user (underground right) is acquired, may be inspected in the office of the Competent Authority, Metro Railway, Calcutta.

Schedule showing the land, building, etc. in which the right of user (underground right) is acquired for the purpose of construction of Metro Railway and other works connected therewith for Calcutta Metro Railway.

CALCUTTA METROPOLITAN CITY LAND SCHEDULE NUMBER 10/28

Reference to Plan		Purpose for which the right of user (under ground right) in the land, building, etc. is acquired.	Area, description and boundary of the land etc. in which right of user is acquired (Underground right)		Underground right
Set	Sheet		Area in Sq. M.	Description	Boundary of the land
PART—I					
Drg. No.	MRC/W/ Land/276-79	Construction of Metro Railway & other works connected therewith	27.50 Sqm	Below 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road.	North : Northern part of the same premises. South : Raicharan Sadhukhan Road. East : Lane (Raicharan Sadhukhan Road). West : Raicharan Sadhukhan Road.
PART : II					
Drg. No.	MRC/W/ Land/276-79	Construction of Metro Railway & other works connected therewith.	148.50 Sqm.	Below 1/1/H/3, Raicharan Sadhukhan Road.	North : Northern part of the same premises, & vacant space bet- ween 1/1/H/3, R.C. Sadhukhan Rd. & 113, Belgachia Road. South : Southern part of the same premises. East : Lane (Raicharan Sadhukhan Road). West : Raicharan Sadhukhan Road.
			176.00 Sqm. (.0176 Hectare).		

[No. 80/MTP/C/LA/64]

K. BALACHANDRAN, Secretary, Railway Board
Ex-Officio Joint Secretary to the Government of India.